

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 322]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अगस्त 2015—श्रावण 19, शक 1937

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”

58, अरेरा हिल्स, भोपाल (म. प्र.)—462 011

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 10 अगस्त 2015

क्र. एफ-65-01-2015-तीन-622.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 45 के उपबंध के अनुसरण में, एतद्वारा, यह अधिसूचित किया जाता है कि राज्य में नगरीय निकायों के उप निर्वाचन, 2015 (पूर्वाद्ध) में दिनांक 25 जुलाई, 2015 को पार्षद पद के लिए निम्नलिखित व्यक्ति निर्वाचित हुए हैं:—

स.क्र.	नगर परिषद् का नाम, जिले के नाम सहित	पद अर्थात् अध्यक्ष / पार्षद	वार्ड क्रमांक केवल पार्षद	निर्वाचित व्यक्ति का नाम	दल से सम्बद्धता	
(1)	(2)	(3)	अंकों में (4)	शब्दों में (5)	(6)	(7)
1	नगर परिषद् बिजुरी, जिला अनूपपुर.	पार्षद	06	छः	श्री अब्दुल अली-पप्पू पिता स्व. जाहिद अली	निर्दलीय
2	नगरपालिका परिषद् धार, जिला धार.	पार्षद	03	तीन	श्री राजेश पिता बाबूलाल बजरंग हारोड़	भारतीय जनता पार्टी
3	नगर परिषद् कुक्षी, जिला धार.	पार्षद	06	छः	अमृत रेवाल	इंडियन नेशनल कांग्रेस
4	नगर परिषद् अकोदिया, जिला शाजापुर.	पार्षद	04	चार	आयशा बी वाहब खां	इंडियन नेशनल कांग्रेस
5	नगर परिषद् जोबट, जिला अलीराजपुर.	पार्षद	09	नौ	धनसूक परमार	भारतीय जनता पार्टी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	नगरपालिका परिषद् डोंगर परासिया, जिला छिन्दवाड़ा	पार्षद	13	तेरह	दविन्द्र सिंह (बल्लू नागी)	भारतीय जनता पार्टी
7	नगर परिषद् भीकनगांव, जिला खरगोन.	पार्षद	08	आठ	रूखमणी किशोर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
8	नगर परिषद् मौ, जिला भिण्ड.	पार्षद	03	तीन	श्रीमती श्यामा यादव पत्नी . सुमित यादव.	भारतीय जनता पार्टी
9	नगर परिषद् दबोह, जिला भिण्ड.	पार्षद	14	चौदह	मीना बानो पत्नी बबली टेलर	इंडियन नेशनल कांग्रेस
10	नगर परिषद् भितरवार, जिला ग्वालियर.	पार्षद	06	छः	श्रीमती सायरा बेगम मुसलमान	निर्दलीय
11	नगर परिषद् बैहर, जिला बालाघाट.	पार्षद	08	आठ	अजीज खान (अज्जू भाई जान)	इंडियन नेशनल कांग्रेस
12	नगर परिषद् नलखेड़ा, जिला आगर-मालवा.	पार्षद	14	चौदह	रमेशचन्द्र	निर्दलीय
13	नगर परिषद् रामपुर नैकिन, जिला सीधी.	पार्षद	10	दस	रामकली	इंडियन नेशनल कांग्रेस
14	नगर परिषद् माचलपुर, जिला राजगढ़.	पार्षद	08	आठ	श्रीमती कौशल्या बाई पति शिवनारायण मालवीय.	भारतीय जनता पार्टी

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( जी.पी. श्रीवास्तव )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.